

अंतिम रिपोर्ट के बारे में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

अंतिम रिपोर्ट में क्या शामिल है?

आयोग ने विक्टोरिया की मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण प्रणाली को नए तरीके से निर्मित करने की योजना बनाई है। इन सुधारों से पूरे विक्टोरिया के समुदाय को लाभ मिलेगा।

अंतिम रिपोर्ट में परिवर्तनों के लिए 65 संस्तुतियाँ शामिल हैं। ये आयोग की अंतरिम रिपोर्ट में नौ संस्तुतियों पर आधारित हैं।

प्रमुख सुधारों में से एक सुधार मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण प्रणाली को सभी के उपयोग के लिए आसान बनाना है। इसके लिए भविष्य की प्रणाली में 50-60 नई, स्थानीय मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण सेवाएँ शामिल होंगी। ये सेवाएँ वयस्कों को उपचार, देखभाल और सहायता प्रदान करेंगी।

संस्तुतियों को कौन लागू करेगा?

आयोग द्वारा दी गई सभी संस्तुतियों को विक्टोरिया सरकार लागू करेगी। स्वास्थ्य विभाग (Department of Health) में नया मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण प्रभाग (Mental Health and Wellbeing Division) मानसिक स्वास्थ्य तथा कल्याण प्रणाली का प्रबंधन करेगा। वे आयोग की संस्तुतियों को लागू करने के लिए जिम्मेदार होंगे।

संस्तुतियाँ कब लागू की जाएँगी?

आयोग की संस्तुतियाँ हमारी मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण प्रणाली में बड़े परिवर्तनों का प्रतिनिधित्व करती हैं। इन परिवर्तनों को करने में समय लगेगा।

अंतरिम रिपोर्ट की कुछ संस्तुतियाँ अभी से ही कार्यान्वित की जा रही हैं। इसमें अस्पताल की आत्महत्या-उपरांत पहुँच संलग्नता (होप) [Hospital Outreach Post-suicidal after Engagement (HOPE)] कार्यक्रम का विस्तार शामिल है। अन्य संस्तुतियों में अधिक समय लगेगा।

आयोग ने 10 वर्षों की सुधार कार्यावली को रेखांकित किया है, जिसमें तीन नियोजन शामिल हैं:

- अल्पावधि-2022 के अंत तक
- मध्यावधि-2026 के अंत तक
- दीर्घावधि-2031 के अंत तक।

क्या मुझे अंतिम रिपोर्ट की हार्ड कॉपी मिल सकती है?

राजकीय आयोग अपने पर्यावरणीय पदचिह्न को घटाने के लिए प्रतिबद्ध है। हम आपको [अंतिम रिपोर्ट और सारांश व संस्तुतियों को ऑनलाइन पढ़ने](#) के लिए प्रोत्साहित करते हैं।

यदि आपके पास घर में इंटरनेट सुलभ नहीं है, तो आप अपने स्थानीय पुस्तकालय में ऑनलाइन रिपोर्ट पढ़ने का प्रयास कर सकते/सकती हैं। आप [सार्वजनिक पुस्तकालय विक्टोरिया \(Public Library Victoria\)](#) की वेबसाइट पर [यहाँ](#) अपने स्थानीय पुस्तकालय की खोज कर सकते/सकती हैं।

यदि मेरे पास अंतिम रिपोर्ट के बारे में कोई प्रश्न हैं, तो क्या होगा?

अंतिम रिपोर्ट के बारे में प्रश्न पूछने के लिए कृपया mentalhealth@dhhs.vic.gov.au पर ईमेल भेजें।

आप जिस जानकारी की खोज कर रहे/रही हैं, वह आपको इन [तथ्य पत्रकों](#) और अंतिम रिपोर्ट के बारे में एक [वीडियो एनिमेशन](#) में मिल सकती है।

क्या मैं आयोग के कार्य के बारे में अभी भी राय दे सकता/सकती हूँ?

राजकीय आयोग समाप्त हो गया है, इसलिए अब यह योगदान स्वीकार नहीं कर सकता है।

आयोग को व्यक्ति-विशेषों और संगठनों से 12,500 से भी अधिक योगदान प्राप्त हुए थे। इसमें एक कार्यबल सर्वेक्षण के लिए लगभग 3,000 प्रतिक्रियाएँ तथा निम्नलिखित योगदान शामिल थे:

- 3,200 से भी अधिक प्रस्तुतियाँ
- सामुदायिक परामर्श सत्रों में 1,650 से भी अधिक लोगों का प्रतिभाग
- 250 से भी अधिक गवाह
- सामुदायिक भावना सर्वेक्षण में 3,000 से भी अधिक प्रतिक्रियाएँ।